



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 550]  
No. 550]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 1978/अग्रहायण 24, 1900  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 1978/AGRAHAYANA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

उद्योग मंत्रालय

( औद्योगिक विकास विभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1978

का० आ० 711 (अ) :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आदेश संख्या का० आ० 844 (ई०) तारीख 17 दिसम्बर, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 बख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रदत्त (जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित नहीं है) सभी संविदाओं सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, अधि-निर्णयों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का जिनमें बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकते हैं, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व तद्वर्षीय उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 14 दिसम्बर, 1979 तक और बढ़ा दी जाती चाहिए।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 बख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि 14 दिसम्बर, 1979 तक और बढ़ाती है।

[सं० फा० 4/26/76-सी० यू० सी०]  
पी० सी० नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi the 15th December, 1978

S. O. 711 (E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development No. S. O. 844 (E) dated the 17th December, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Limited, Calcutta is a party or which may be applicable to

the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 14th December, 1979 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period upto the 14th December, 1979.

[File No. 4/26/76-CUC]

P. C. NAYAK, Joint Secy.